



## MYSTIC SONGS OF KABIR

1. मोको कहां ढूंढेरे बंदे में तो तेरे पास में।  
ना तीस्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में।  
ना मंदिर में ना मसजिद में ना काबे कैलास में।  
में तो तेरे पास में बंदूं में तो तेरे पास में।  
ना में जप में ना में तप में ना में बरत उपास में।  
ना में किरिया कर्म में रहता नहीं जोग सन्यास में।  
खोजी होये तुरत मिल जाऊं एक पल की तलास में।  
कहे कबीर सुनो भई साधी में तो हूं बिस्वास में।

Wherever do you seek me man  
I am close, quite close to you.  
Nor in sacred places I am  
Not in temple idols either  
Not in solitary places I remain  
I am close, quite close to you.  
I stay not in temple or in mosque  
Nor in Kaaba or Kailash either  
I remain close, quite close to you.  
Not in austerities, nor in meditation I am

Not in feasting or fastings either  
Not in worships laid down by scriptures  
Not in 'yogic' exercise, I am;  
I tell you man, if you seek me in earnest  
I am by your side in trice.  
Says Kabir, O Sadhu listen with care,  
Where your faith is, I am there.

2. राम रहीम एकै हे रे काहे करो लराइ।  
वोहि निरगुनिया अगम अपारा तीनो लोक सहाइ।  
बेद पढंते पंडित हे गये सत्य नाम नहिं जाना।  
कहे कबीर ध्यान भजन से पाया पद निर्बीना।  
एकहि माटि की सब काया ऊंच नीच कउ नाहिं।  
एकहि जोति बरें कबीरा सबकी अंतर माहिं।  
एहु अनमोलक जीवन पायो सद्गुरु सबद ध्यायो।  
कहे कबीर पलक में सारि एक अलखा दरसायो।

Rama and Rahim are one and same  
What makes you quarrel and fight?  
He is the Non-qualitative God  
Who sustains the entire Universe.  
Merely being able to read the Vedas  
One passes for a Pundit here  
Knows not Truth same as God.  
By meditating and singing praise of Him  
Did Kabir realise Him be sure!  
All are made of same elements  
None high nor low when born,

The same Glow shines in everyone  
In the heart of every man.  
Man is blessed with a precious life  
Should utilise that in right way  
Following Preceptor's advice;  
Says Kabir, that way will you  
Realise God in a trice.

3. पानी में मीन पियासी मोहि सुनि सुनि आवत हांसी।  
घर में बस्तु धरी नहिं सूझै, बाहर टूटन जासीं  
मृग की नाभि मांहे कस्तूरी, बन बन खोजत बासी।  
आतम ज्ञान बिना सब झूठा क्या काबा क्या कासी।  
गंगा जाय गोदावरी कीन्ही भक्ति बिना सबनासी।  
जलथल सागर पूर रहया है भटकत फिरै उदासी।  
कहे कबीर सूनो भई साधो सहज मिलै अविनासी।

I cannot resist laughter hearing  
'Fish' lives in thirst in water!  
That is same as seeking all over  
For a thing plentiful indoor  
And, as "Kasturi" lodged in navel of deer  
He seeks it in grass here and there.  
Without knowledge of self all else is false  
As sans devotion, "Kaaba" and "Kashi",  
And pilgrimage to Godavari and Ganges.  
The Eternal God is omnipresent  
In land and forest and sea  
The listless seeks Him all over in vain;

Says Kabir, the sincere gets Him with ease.

4. मन न रंगाय रंगाय जोगी कपड़ा।

आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छड़ि पूजन लागे पथरा।

कनवा फड़ाय जटवा बढीले, दाढ़ी बढ़ाय जोगी हे गेले बकरा।

जंगल जाय जोगी धुनिया रेमाले, काम जराय जोगी हे गेले हिजरा।

मथवा मुंडाय जोगी कपड़ा रंगेले, गीता बांच के हे गेले लबरा।

कहहि कबीर सुनो भई साधो, जम दरवाजा बांधर जेबे पकड़ा।

The Yogi dyed his clothes

His mind he dyed not;

He sat tight in the temple

Worshipped the stone idol there

Forgetting "Brahma", the real God.

He pierced his ears

Grew matted hair on head

And long beard like the goat.

Repaired to forest and raised fire there

Wherein his lust he burnt

And became a eunuch.

He then shaved his head

Put on dyed clothes

Delivered speeches on Gita.

And passed for a speaker.

Says Kabir, listen O Sadhu,

He will be tied and led to hell, be sure.

5. सांडू की नगरिया जाना हे रे बंदे।

जग नहिं अपना बेगाना है रे बंदे।  
पत्ता टूटा डार से ले गयो पवन उड़ाय।  
अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाय।  
माली आवत देख के कलियन करे पुकार।  
फूले फूले चुन लिये कालि हमारी बार।  
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय।  
दुई पाटन के बीच में, साबित बचा न कोय।  
माटी कहै कुम्हार से, तू क्या रुँदै मोय।  
इक दिन ऐसा आयगा, मैं रुँदुंगी तोय।  
लकड़ी कहै लुहार से, तू मत जारे मोहि।  
एक दिन ऐसा होयेगा, मैं जाऊंगी तोहि।  
बंदे तू कर बंदगी, तो पावै दीदार।  
अवसर मानव जनम का बहुरि न बारंबार।  
कबीरा सीया क्या करे, जाग न जपे मुरारि।  
एक दिन है सीवना, लंबे पांव पसारी।

Man, you have to go back to the Lord's city  
The world is not fit place for you to live;  
When dry leaf breaks from the branch of tree  
And wind carries it far  
Can it ever rejoin the branch?  
It will lie on ground that far.  
Seeing the gardener approach them  
The buds whisper their plight  
Today he collects full blown ones  
Tomorrow's turn will be ours.

Seeing the moving stone grinder  
Kabir wails and says as much  
None escapes the grinder stones,  
Is grinded to powder without fail.  
The clay says to the potter, "You do not  
Dig and smother me,  
For one day it will so happen  
I will swallow you into me."  
The faggot tells the smith  
"You do not burn me down today,  
For, one day it will so happen  
I shall burn you to ashes myself."  
Says Kabir, man you revere God  
You will get His grace and blessing,  
You cannot hope to be born as human  
Again and again in births successive.  
No use wasting your time in slumber  
Wake up and sing the praise of God  
For you shall one day sleep for ever  
Stretching your limbs all over

6. आवे न जावे मेरे नहिं जन्मे सोइ निज पिव हमारा है।  
ना प्रथम जननी ने जन्मे ना कोइ सिरजन हारा है।  
साधन तीरथ मुनि ना तपस्या ना कोइ बरत आचारा है।  
ना खाट दरसन चार बरन में ना आसम व्यवहारा है।  
ना श्रीदेवा सोहम् सक्ति निराकार से पारा है।  
सत्य अतीत अटल अविनासी ना ओम ओंकारा है।  
धरनी ना गगन पवन ना पानी ना रबि चंद्रा तारा है।

हैं परगट परतीत नाहिन, सद्गुरु सैन सहारा है।  
कहे कबीर सर्वही साहेब परख्यो परखान हारा है।

He, the Eternal Lord of mine  
He does not come to die and come again  
He has no mother nor maker either;  
To get Him no need for penance  
Or feasting or fasting, be sure.  
Nor the formal and rigid worships,  
No fixed hours for meditating Him  
He is not God or Goddess either;  
Beyond the Formless in Eternal state  
Of steadfast "Truth" in essence is He.  
Different from other entities  
He is not a bright effulgence either  
Nor conceived by Om and Omkar.  
Where He is there is no sky, air or water  
Neither Sun, Moon nor star;  
He is omnipresent but, not manifested  
That is what the Sadguru has said;  
Says Kabir—In truth  
Everything manifest is He alone;  
Let anyone probe if he so likes.

7. अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन जम तेरा आवेगा।  
सौदा करने को या जग आया, पूंजी लाया मूल गँवाया।  
प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्युं आया त्युं जावेगा।  
सुन मेरे साजन सुन मेरे मिता, या जीवन में क्या क्या बीता।

सिर पाहन का बोझा किता, आगे कौन छुड़ावेगा।  
परली पार मेरा मिता खाड़िया, उस मिलन का ध्यान न धरिया।  
टूटी नाव पर जो बैठा, गाफिल गोता खावेगा।  
दास कबीर कहै समुझाइ, अंत काल तेरा कौन सहाइ।  
चला अकेला संग न कोइ, किया आपना पावेगा।

O my mind! do not get baffled  
And commit mistakes,  
Remember death will sure  
Come to you one day!  
You have come on business here  
With seed capital from far;  
You could not gauge the ways of the world  
Frittered away the wherewithal!  
With empty hands you will return  
Achieving nothing here at all.  
And deserve only kicks for that!  
Listen my friend, my dear chum,  
Tell all what you did here on earth,  
Why you are carrying  
The bad of stone on head,  
Who will relieve you of that?  
At the end of your journey there  
Stands my chum on the other shore  
You have not guessed of that encounter!  
Says Kabir, do listen, I tell you again  
You are all alone—none with you,  
Alone you shall reap the fruits,  
Of all your deeds.



8. चलना है दूर मुसाफिर काहे सींवे रे।

चेत अचेत नर सीच बावरे, बहुत नींद मत सींवे रे।

काम क्रोध लोभ मद में फंस कर, उमरिया काहे खींवे रे।

सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तोर हींवे रे।

सो गठरी तोरि बीच में छिन गड्ड, मुंड पकरि काहे रींवे रे।

रास्ता तो दूर कठिन है चलबा अकेला हींवे रे।

संग साथी तेरो कोडु न चलेगा, काके डगरिया चींवे रे।

नदिया गहरी नाव पुरानी, केहि बिधि पार तु हींवे रे।

कहे कबीर सुनो भडु साधी, ब्याज धीके मूल मत खींवे रे।

चलना है दूर मुसाफिर काहे सींवे रे।

O visitor, do wake up!

Why are you so much in slumber?

You have yet to go far my friend

Do not lose your senses sleeping!

Waste not your precious life

Remaining in the grip of lust and ire

And greed and power always!

With bundle of illusion and attachment on head

You have to move on lonely road;

For theft or loss of the bundle you will

Wail alone on your way!

Far is your target visitor

And the road beset with danger

You have to go all alone, all along

Whose steps will you follow?

Deep is the river on your way  
And old and battered the leaky boat  
How will you cross the river in it?  
Says Kabir, don't try to earn more interest  
And lose your entire capital thereby.

9. मन तोहे केहि विधि में समझाऊं।

सोना होय सुहागा मंगाउं बंक नाल रस लाउँ।  
ग्यान सबद का फुंक चलाउं पानी कर पिघलाउँ।  
घोड़ा होय लगाम लगाउं ऊपर जीन कसाउं।  
होय सवार तेरे पर बैठूं चाबुक दे के चलाऊं।  
हथी होय जंजीर गढाऊं, चारों पैर बंधाऊं।  
होय महावत तेरे पर बैठूं अंकुस ले के चलाऊं।  
लोह होय ऐरण मंगाउं उपर धुवन धुवाउँ।  
धुवन की घन घोर मचाउँ जंतर तार खिचाउं।  
ग्यानी न हो ग्यान सिखाउं सत्य की राह चलाउं।  
कहत कबीर सुनो भइ साधो अमरापुर पहुँचाउं।

O my mind,  
Tell me how I shall convince you!  
Were you made of god  
With "Sohaga" and "Bankanal" juice  
I would put you to burning fire  
And plying the blower of knowledge  
Heat you to soften  
And clean and brighten you;  
Were you a horse

With reins to your mouth  
And saddle on back  
I would use the whip to drive you fast.  
Were you an elephant  
I would get chains of steel  
To bind all your feet  
And as 'Mahaut' on your back  
Make you move with help of hook;  
Were you of iron made  
I would apply "Eran"  
And put you to heat and soften  
And draw into wires  
To make use of that elsewhere;  
Were you a dunce  
I would teach you knowledge  
And guide you on the path of Truth;  
Says Kabir, I would reach you to Heaven!

**10.** चादर हो गइ बहुत पुरानी, अब तो सीव समझ अभिमानी।  
अजब जुलाहा ये चादर बीनी सूत करम का तानी।  
सुरति निरति को भरनी दीनी तब सब को मनमानी।  
भैली दाग परे पापन की, बिसयन में लिपटानीं  
ग्यान का साबुन लाय न धीओ, सत संगत के पानी।  
भई खराप अब गइ सारी लोभ मोर में सानी।  
ऐसेइ ओढ़ते उमर गंवाइ भली बुरी नहिं जानी।  
संका मति जान जीय अपने हे इह बसु बिरानी।  
कहे कबीर यह राखु जतन से नहिं फिर हाथ न आनी।

Your "Chadder" has become old and ragged  
Do give up pride and ponder!  
Unique the weaver who made the chadder  
With the threads of your deeds as "Tani"  
And those of love-devotion as "Varni".  
And that satisfied all as proper.  
But soon the stains of your sins showed up  
And made the chadder look dirty  
With the shades of earthly bondage,  
You tried to wash it with soap of knowledge  
And water of company of true saints;  
But, it improved not  
Being further darkened by shades of greed  
And also attachment!  
You put up with that and used as such  
All the rest of your life  
Without knowing the good and bad in it,  
And also that the chadder was precious,  
A thing of rare mettle.  
Says Kabir, it has to be kept with care  
And used as such  
Or else you cannot  
Get another term with it!

**11.** झूठा लोग कहें घर मेरा।

जा घर माही बोले डोले, कोड़ नहीं तँह तेरा।

बहुत बांश्या परिवार कुटुंम में कोड़ नहीं किसि केरा।

बस्ती में थे मारि चलाया जंगल किया बसेरा।

जीवत असिनु अंखियां देखी संसार अंध अंधेरा।

कहे कबीरा राम भजहुरे, बहुरि न होगा फेरा।

In vain do people  
Claim their house as their own;  
The house, they live in with others  
None there is their own.  
Close to each other do they live  
None belongs to any other!  
They got fed up with their neighbours in town  
And went to the jungle to live,  
All my life, I saw for myself,  
Whole of world is dark and dim,  
Says Kabir, do take shelter of God  
You shall not return earthward again.

**12.** मन तुम नाहक ढुँढ़ मचाये।

करि असनान छुवो नहिं काहु पानी फूल चढ़ाये।  
मूरत से दुनिया फल मांगे अपने हाथ गढ़ाये।  
चलत फिरत में पांव थकित भै यह दुख कहां समाये।  
झूठी काया झूठी माया झूठे झूठे झूठल खाये।  
बांझन गाय दूध नहिं दे हे माखन कहां ते पाये।  
सांच के संग सांच बसत हे झूठे नारी हठाये।  
कहे कबीर यह सांच बस्तु हे सहजे दरसन पाये।

O mind why in vain  
You fall into confusion!  
After taking bath you touch none other  
Till you offer flowers

To the idol God built by your own hands;  
And ask for favours  
Stretching the same hands in prayer;  
By repeated visits to Him for that  
Your feet are tired, bruised, and numb!  
Vain are the efforts you are making  
All that is illusion!  
Can a sterile cow be ever milked,  
How can you produce butter?  
Truth remains with Truth alone  
Illusion is all false.  
Says Kabir, if on truth steadfast  
You will realise God no doubt!

### 13. अवधू माया तजी न जाडु।

गिरह तज के बस्तर बांध, बस्तर तज के फेरी।  
काम तजे तो क्रोध न जाडु, क्रोध तजे तो लोभा।  
लोभ तजे अहंकार न जाडु मान बड़ाई सीभा।  
मन बैरागी माया त्यागी सबद में सुरत समाडु।  
कहे कबीर सुनो भडु साधी यह गम बिरले पाडु।  
O. Abdhut! It is hard to discard attachment;  
You left home on adopting sannyas!  
Wandered here and there in woods;  
Sannyas you left, became mendicant  
Begging for alms at many doors,  
You gave up your lust, but anger remained  
When anger you gave up, greed came in,  
Pride followed greed in quick succession.

The root remained in the mind always,  
Attachment did not leave it at all  
Except in word of mouth only.  
Says Kabir O, Sadhu listen  
Few know this state of mind!

**14.** अवधू भजन भेद है न्यारा।

क्या गाये क्या लिख बतलाये क्या भरमे संसारा।  
क्या संध्या तरपन के कीन्हे जो नहिं तत्व बिचारा।  
ज्ञान दान का मरम न जाने बाढ़ करे अंधारां  
सो पाये जो करे अधारा, केवल सत्य विचारा।  
कहे कबीर सुनो भइ साधो सारा सहित परिवारा।

Listen Abdhut,  
The true essence of prayer  
Is indeed hard to grasp;  
How shall I sing or write of it  
I find it nowhere on earth,  
It is not as "Sandhya" or evening prayer  
Nor as Tarpan practiced by people.  
Without knowing the essence of knowledge  
Or of benevolence either,  
All are clouded in illusion's darkness here.  
Says Kabir, he alone does realise  
Whose base is steadfast in Truth;  
Listen this with your family entire.

**15.** अरे दिल प्रेम नगर का अंत न पाया।

ज्यों आया त्यों जायेगा।

सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता  
या जीवन में क्या क्या बीता।  
सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा।  
परली पार मेरा मीता खाड़िया  
उस मिलन का ध्यान न धरिया।  
टूटी नाव ऊपर जो बैठा गाफिल गीता खावेगा।  
दास कबीर कहे समुझाइ अंत काल तेरा कौन सहाइ।  
चल अकेला संग न कोइ, किया अपना पावेगा।

O my mind!

You could not grasp the essence  
Of the city of love you visited,  
You must go back as you came here  
Listen my friend, tell me once  
All that happened in your life so far.  
You are moving with a head-load of stones,  
Who will relieve you of that ahead?  
You are sitting on a battered boat  
In the end you will deserve kicks only.  
I explain to you do listen with care  
Who will come to your help in the end?  
You will have to move all alone by yourself  
None will keep company with you  
You will reap the fruits of your deeds alone.

**16.** तन जाने को स्वर्ग नरक है

हरि जाने को नाहिं।

जो डर से भव लोग डरत है



सो डर हमरे नाहिं नाहिं।  
पाप पुण्य को संका नाहिं  
स्वर्ग नरक नहिं जाबूं।  
कहे कबीर सुनहुरे संतो  
जहां का तहां समाडु समाडु।

Who knows his body as everything  
Admits of heaven and hell,  
He who knows God as that  
Admits that not at all.

The fear of death that assails men  
That fear does not touch me  
I am not assailed by piety and sin  
I do not know heaven and hell.  
Says Kabir, O saints do listen  
Sit tight on the seat you are.

17. साहब हम में साहब तुम में जैसे प्राणा बीज में।  
मत कर बंदे गुमान दिल में खोज देख ले तन में।  
सब ताप मिट जाय देही के निर्मल हो बैठी जग में।  
कोटि सूर जंह करते झिलमिल नील सिंध सीहे गगन में।  
अनहद घंट बाजे मृदंग तन सुख लेहि पियार में।  
बिन पानी लागी जंह बरसा मोती देख नदीन में।  
एक प्रेम ब्रह्मंड छाया रहयो है समुझे बिरले पूरा।  
अंध भेदि कहा समझेंगे ज्ञान के घर ते दूरा।  
बड़े भाग अलमस्त रंग में कबिरा बोले घट में।  
हंस उबारन दुख निवारन आवागमन मिटे छन में।

Like life of tree remaining in seed  
So unseen remains the Lord  
In every Being on earth.  
Shed your arrogance, and look inside  
You will find Him there for certain,  
And all your strife and distress will vanish  
You will sit in peace of mind.  
The blue of sea in the sky you will see  
In countless suns' effulgence.  
The unheard music of drum and bells  
You will hear swelling from there  
And be thrilled to the core.  
Without drenching the sky rains there  
And gems shine in the river sands,  
Love of the Lord pervades the Universe;  
Few grasp the essence of it in full.  
Those wanting in knowledge thereof  
How will they grasp us essence?  
Kabir sings the praise of the Lord  
And union of soul and supreme Soul,  
The Soul's salvation and end of  
Whirl of life and death.

**18.** साधो एक रूप सब मांही।

अपने मनहि बिचार के देखो और दूसरो नाहिं।  
एक त्वचा रुधिर पुनि एकै, विप्र सुद के माहीं।  
काहिं नारी काहिं नर होइ बोलै, भैब पुरुष है नाहीं।  
सबद पुकारि सब में भाखै अंतर राख्यो नाहीं।

कहे कबीर ज्ञान जेहि निरमल बिरले ताहिं लखाहीं।

O Sadhu, all men of earth have same figure,

In your mind do ponder!

None is different from the other.

Same is the skin and blood inside

Be he a Brahman or a Sudra!

Some become men and some women

Not different one from other;

I am speaking the whole of the fact

Withholding nothing whatever,

Says Kabir, whose knowledge is pure and complete

Those few will realise this!

**19.** जा विधि मन को लगावै मन को लगाये प्रभु पावै।

जैसा नटनी चढ़त बांस पर नटवा ढोल बजावै

अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरति बरत पर लावै।

जैसे भुवंगम चरत बनहिं में ओस चाटने आवै।

कबहुं चाटे कबहुं मनि चेतवै, मनि तजि प्रान गंवावै।

जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बरतावै।

अपना रंग सखियायन संग रखै, सुरति गगर पर लावै।

जैसी सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावै।

मातु पिता सब कुटुम तियागै, सुरति पिया परलावै।

धूप दीप नैवेद अरगजा, ग्यान की आरती लावै।

कहे कबीर सुनो भइ साधी फेर जन्म नहिं पावै।

स्पेजमदू वू लवन वनसक मदहंम लवनत उपदक

To realise Almighty Father:

Look how the dancer goes up the pole

To the lusty drummer's beat of drum  
With a bundle on her head she rides  
With her legs and hands, in attention  
Like the reptile in the grass on prey.  
When it needs to brush its lips  
In process is dislodged the gem from hood,  
Loses its sight and faces death.  
Like the damsel filling water from well,  
And with pitchers full of water on head  
Moves with friends  
Chatting and frisking sportively  
With attention on the head load pitchers.  
Like "Sati" climbing the funeral pyre  
Of her husband to immolate her  
Forsaking parents and family all  
With mind on her love rivetted;  
Discarding the flowers, candle and rituals  
Offering mind's "Arati" instead.  
Says Kabir, if so,  
You will realise Him  
And bypass the birth-death whirl!

**20.** ता थे कहिये लोकाचार।

वेद कतेब कथे व्योहार।

जरि बरि कर आवि देही, मुवा पाछे प्रीत सनेहा।

जीवत पित्राही गारी दीन्हा, मुवा पित्रेले घाले गंगा।

जीवत पित्रकुं अन्न न ख्वावे, मुवा पाछे स्पं भरवि।

जीवत पित्रकुं बोले अपराध, मुवा पाछे देहि सराध।

कहे कबीर मोहि अचरज आवै, कओवा खाहु पित्र क्युं पावै।

What is known as "ritual"

The scriptures call them "rule of Law".

On death the body is put to fire

And respect and affection

Shown in ample measure

To the departed Soul.

In life father was neglected

On death his ashes are put in Ganga bed.

In life he was never well fed

On death the cow and bull are bade,

Harsh words to him were in life used

In Sradha great honour is showered

Says Kabir, I am astonished how

The food offered to crane or cow

Will reach the father in Heaven!

**21.** कौन बिचारि करत हो पूजा?

आत्म राय अवर नहिं दूजा।

बिन प्रतीते पानी तोड़े, ग्यान बिन देवल सिर फोड़े।

लचरी लपसी आप संवारै, द्वारे खाड़ा राम पुकारे।

पार आत्मा जो तत विचारै, कहे कबीर ताके बलिहारै।

On what basis do you worship God

"Atma Ram" in you, none else is the Lord!

Sans belief all your effort is like

Drawing lines on water to vanish in trice

Sans knowledge of essence

It's hitting head on wall.

Man is immersed in mundane worries  
Cannot hark Lord Rama calling at door;  
Says Kabir, I bow to that person  
Whose heart is steadfast  
On feet of Almighty Father.

**22.** अनगढ़िया देवा कौन तेरी सेवा।

गढ़े देव को सब कोइ पूजे कितही लखे सेवा।  
पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी तारके न जानै भेवा।  
दस औतार निरंजन कहिये सो अपना न होइ।  
यह तो अपनी करनी भोगे कर्ता और हो कोइ।  
जोगी जती तपी सन्यासी आप आप में लड़िया।  
कहे कबीर सुनो भइ साधो राग लखे सो तरिया।

O ye Formless Eternal God,  
Who does worship you here?  
All are worshipping temple idols,  
Offering services every day;  
They do not pay any attention  
To the Formless Brahma, Eternal God.  
They treat the Ten incarnations as God  
Who cannot even protect themselves  
Like men they too have to reap  
The fruits of their own deeds.  
The Real God  
Is no doubt someone else;  
All the saints and ascetics  
Are steeped in their own doubts and disputes.  
Says Kabir, do listen O. Saints

If you remain steadfast  
On love-devotion to Almighty God  
He will give you salvation.

**23.** अवधू बेगम देस हमारा।

राजा रंक फकीर बादसा सब से कहे पुकारा।  
जो तुम चाही परम पद की बसिहो देस हमारा।  
धरनी अकास गगन कछु नाहीं नाहीं चंद्र नाहीं तारा।  
सत धर्म कोहै महतावे साहेब के दरबारा।  
जो तुम आये झींनिं झोके तजो मनकी भारा।  
कहे कबीर सुनो हो प्यारे सत धर्म हे सारा।

O Abdhut,  
Different and difficult is my land.  
I call out and tell you all,  
Be you a Royal Prince,  
Poor or street beggar,  
If you want salvation for you  
Do come and live there.  
No earth or heaven or sky is there  
No moon or stars to see  
That is the land lighted by Truth and Piety,  
The Eternal Lord holds His open Court there  
Shed all your doubts and strife of mind  
Take the Lord's Name with love-devotion  
Salvation will be yours for ever.

**24.** कौन मुरली सबद सुन आनंद भयो।

जोत बरे बिन बाती।

बिन मूल के कमल प्रगट भयो  
फुलवा फुलत भांती भांती।  
जैसे चंद्रमा चकोर चितवै  
जैसे चातक स्वांती।  
जैसे संत सुरत के हो के  
हो गये जनम संघाती।

Which flute you heard.  
That gladdened your heart?  
Look here, without a flame  
The land is illumined  
Lotus blooms without a root  
Flowers of many a hue bloom there always:  
As the Chakor pines for the moon  
And as Chatak for the cloud  
Merge your mind like that  
In deep love-devotion  
To the Lord.

**25.** गुरु बिन कौन बतावै बाट  
बड़ विकट जम घाट।  
भांति को पहाड़ी नदिया बीच में  
अहंकार की लाट।  
मढ़ मत्सर का मेहा बरसत  
माया पवन बहे दाट।  
कहत कबीर सुनो भाड़ु साधो  
क्यों तरना यह घाट।



Who other than the Preceptor  
Will guide you in the land of Death?  
It is full of hills of bitter strife  
And ravines of fast flowing waters;  
Rains of power and passion fill them  
All the year round.  
Air of illusion blinds the way  
Day and night always,  
Says Kabir, O Sadhu tell,  
How you will cross them all.

**26.** माया महा ठगिनी हम जानी।  
तिरगुन फांस लिए कर डोलै बोलै मधुर बानी।  
केसव के कमला है बैठी, सिव के भवन भवानी।  
पंडा के मूरत है बैठी, तीरथ में भडु पानी।  
जोगी के जोगिन है बैठी, राजा के घर रानी।  
काहू का घर हीरा है बैठी, काहू के कीड़ी कानी।  
भगवन के भगवती है बैठी, ब्रह्म के ब्रह्मानी।  
कहे कबीर सूनो हो संतो, यह सब अकथ कहानी।

I know "illusion" the great deceptor  
With a three-fold noose she moves always  
In sweet words she talks to all.  
As Kamala, she remains with "Vishnu".  
With Lord Shiva, as Shivani;  
In temple idol she is for the priest  
For pilgrim places, she is sacred water there,  
With the Yogi she stays as Yogini,  
With the King as Queen;

For the devotee as devotees, she remains,  
Of Brahma as Brahmani.  
Says Kabir, listen O ye, the wise,  
This is untold story for all!

**27.** रूप रेखा जेहि है नहीं, अधर धरे नहिं देह।

गगन मंडल के मध्ये रहता पुरुष बिदेह।

सांझ मेरा एक तूं और न दूजा कोइ।

जो साहब दूजा कहे दूजा कुलका होइ।

सगुन का सेवा करों निर्गुन का करूं ज्ञान।

निर्गुन सगुन के परे तहें हमारा ध्यान।

Who has no shape or size of body

Has no body at all or mouth;

In the blue of the sky

He remains

Alone and unseen by all.

He is the One and One only;

He who says He is more than one

Belongs to no clan or family, do note.

Says Kabir, I worship the Embodied

I know of the Bodyless One;

But beyond both the Embodied and Bodyless

There I fix my attention!

**28.** क्या मागूं कछु थिर न रहाइ।

देखात नयन जलिया जग जाइ।

इक लख पूत सवा लख नाती ता रावन धरि दिवा न बाती।

लंका सी कोट समद सी खाडु, ता रावन का खाबर न पाडु।  
आवत संग न जावत संगती, कहा भयो दरि बांधे हाथी।  
कहे कबीर अंत की बारी हथ झाड़ि जैसे चले जुवारी।

I cannot imagine  
What I should beg of the Lord.  
Before my eyes I see the world go up in flame;  
King Ravana of Lanka had a lakh of sons  
And half a lakh grandsons to boot;  
In the end not one remained  
Even to show him path by a little lamp.  
The glory that was Lanka  
Girt by the wide sea  
In the end none could trace  
Its king that Ravana was.  
Says Kabir, you come all alone  
And alone you shall go back  
Why keep the elephants  
Tied in your courtyard  
To be of service to you?  
Like the gambler losing all his money  
You shall go back,  
With empty hands too.

**29.** में जन भूला तूं समझाडु।  
चित चंचल रहे न अटक्यो बिषि बन कूं जाडु।  
संसार सागर माहि भूल्यो थक्यो करत उपाडु।  
मोहनी माया बांधनी थे राखिले राम राडु।  
गोपाल सुनि एक बिनती सुमति तन ठहराडु।

कह कबीर यह काम रिपु है मारे सबकुं ढाड़।

If I miss my way

Do point it out to me;

My mind gets unsteadied

In the dense mundane forest

That attracts it more and more;

To cross the earthly sea it tries

But soon gets tired of it.

The mundane Illusion engulfs it;

O Lord Rama, do intervene

My good sense is not able to

Ward off its influence,

Says Kabir, on top of all

Lust the powerful sense enemy

Assails one and all here

With a hard blow.

**30.** अब तुम कब सुमिरीगे राम।

जीवड़ा दो दिन का मेहमान।

गरभवास में हथ जुड़ाया निकल गया बएमान।

बालापन खेले गंवाया तरून भयो मन काम सताया।

बूढ़ेपन तन कांपन लागा निकल गया अवसान।

झूठी काया झूठी माया आखर मेथ निदान।

कहत कबीर सुनो भइ साथी दो दिन का मेहमान।

When will you start

Mediating the Almighty Lord,

Forget not you are a mere

Temporary guest here.  
In mother's womb you prayed to Him  
With folded hands there  
Out of a you soon forgot  
The essence of R all.  
In play web friends you spent childhood  
In youth a prey to lust  
In old age weakness overtook you  
Lost your heydays all.  
Lost sight that body is all false  
And death was the certain end;  
Says Kabir, do listen all wise men  
Forget not your transience here.

**31.** हरि हिरद्रे अत कत चाही।  
भूले भरम दूनी कत बाही।  
जग परबोध हीत नर खाली कर ते उदर उपाया।  
आतम राम न चीन्हे संतो क्युं रमिले राम राया।  
लोग प्यास नीर सो पीवे बिन लागे नहिं पीवे।  
खोजे तत मिले अविनासी बिन खोजे नहिं पावे।  
कहे कबीर कठिन यह करनी जैसी सँडेधारा।  
उलटी चाल मिले परब्रह्म को सो सतगुरु हमारा।

The Lord is in your heart to find  
Wherever else do you wander  
In search of Him in vain?  
Man does not understand that at all  
Busy in feeding himself;

If you cannot find Him in your own heart  
How can you find Him in smaller spheres?  
The thirsty alone can find water to drink  
Without thirst how can he get?  
If you search in earnest  
You get Him in trice  
If not how can you get?  
Says Kabir, it's difficult to achieve  
Like walking on razor's edge.  
Or else you cannot realise God  
As the Sadguru did presage.

**32.** भलै निदो भलै निदो भलै निदो लोग।  
तन मन सब पियारे जोग।  
भैं बीरी मेरे राम भरतार  
ता कारनि रचि करे सिंगार।  
जैसे धुबिया रज मल धींवे  
हर तप रत सब न्यंदक खींवे  
न्यंदक मेरे माडु बाप।  
जन्म जन्म के काटे पाप।  
न्यंदक मेरे प्रान अधार  
बिन बेगारि चलोवे भार।  
कहे कबीर न्यंदक बलिहारी  
आप रहे जन पार उतारी।

The reviler is a friend I own  
He helps me to keep my mind

Fixed on Lord Rama alone  
I am mad in love for my Lord Rama,  
For Him I decorate my body always;  
Like the washerman cleaning dirty garments  
The reviler makes my mind clean.  
He is as good as my parents to me  
Washes me clean of all my sins  
Of many a bygone births.  
He is of great help to me in life  
Carries all my loads free of charge  
I am all praise for the reviler  
He sinks in sins, saves all others.

**33.** नाहीं धर्मी नाहीं अधर्मी ना में जती न कामी हों।  
ना में कहता ना में सुनता ना में सेवक स्वामी हों।  
ना में बंधा ना में मुकता ना में बिरत ना रंगी हों।  
ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू से संगी हों।  
ना हम नरक लोक को जाते ना हम स्वर्ग सिधारे हों।  
सब ही कर्म हमारा कीया हम करमन ते न्यारा हों।  
जा मत कोडु बिरले बूझे जो अटल हो बैठे हो।  
ना कबीर काहू को थापे ना काहू के मेटे हो।

I am neither piteous, nor am I sinful  
I am neither a saint nor lustful either,  
I do not give any discourse here  
Nor hear any from another;  
Neither a servant nor master am I;  
I am not tied to any nor free from all;

Neither am I different from all on earth  
Nor copy of any other;  
I am not on the path to heaven from here  
Nor on my way to hell, either.  
I am doer of all my deeds  
But apart from all of them am I,  
Very few grasp the essence of this  
Those who are steadfast on their legs;  
Says Kabir, I am neither creator of any  
Nor destroyer of any other.

**34.** जहंवा से आयो अमर वह देसवा।

पवन पानी धरती अकासवा चांद न सूर न रेन दिवसवा।  
ब्राह्मन छत्री न सुद बैसवा, मुगल पठान न सयद सेखवा।  
आदि जोत नहिं गौर गनेसवा, ब्रह्मा बिस्नु महेस न सेसवा।  
जोगी न जंगम मुनि दरवेसवा आदि न अंत न काल कलेसवा।  
दास कबीर ले आये संदेसवा, सार सबद गहि चलो वा देसवा।

Eternal is the country  
Whence you have come here!  
There is no land nor sky there  
Nor Sun or Moon in that country,  
Neither Brahman, Chhatri nor Sudra or Vaishya  
Nor Mughal, Pathan nor Saiyed or Sheikh  
None stay there in that country.  
With Eternal brilliance is that land lighted;  
Neither Ganesh nor Brahma, Vishnu nor Mahesh  
Nor Shesha Naga does exist there.



There is no Yogi nor mendicant  
Nor Muni or Darvesh either.  
There is no beginning nor middle nor end  
Nor death or disease exist at all;  
Das Kabir has himself carried this message  
Do accept that as genuine  
And proceed in confidence there!

### 35. भक्ति का मारग ड़ीना।

कीडु जाने जाननहार संत जन जो पर बिना रे।  
नहिं अचाह चाह कछु उर में मन लीलीना रे।  
साधुन की संगति में निस दिन रहता लीना रे।  
सबद में सुरति बसै ड़ुमि जैसे जल बिच मीना रे।  
जल बिछुरत ततकाल होत जिमि कमल मलीना रे।  
धन कुल का मान त्याग करे रहे अधीना रे।  
परमास्थ के हेत देत सिर बिलम ना कीना रे।  
धारन करि संतोस सदा अमृत रस पीना रे।  
भक्त की रहनि कबीर सकल परगठ कर ड़ीना रे।

The path of devotion to the Lord  
Is indeed very arduous;  
Only few knowledgeable saints  
Know all that.  
The heart of the true devotee  
Is free always from desires,  
It remains immersed like fish in water  
All day and night in love of the Lord,  
And in company of true saints;

And like the lotus flower  
For want of water devotee for want of God's love  
Shrinks and withers instantly,  
He remains always humble  
And without pride of clan and wealth;  
The true devotee is always ready  
To lay his head if need be to help others  
Without delay or hesitation;  
And above all he remains content  
In all conditions always.  
Says Kabir, wan this  
All essential qualities of the true devotee  
Are all explained fully.

### 36. लीगा मति का भीरा रे।

जो कासी तन तजे कबीरा रामहि कहा निहीरा रे।  
तब हम वैसे अब हम ऐसे इहे जग का लाहा रे।  
राम भगति पर जाके हित चित ताकी अचरज काहा रे।  
गुरु परसाढ़ साध की संगति जन जीते जाइ जुलाहा रे।  
कहे कबीर सुनहुरे संतो भमि परे जनि कोइ रे।  
जस कासी तस मगहर ऊसर हिरदे राम सति होइ रे।

People are often misled by their mind;  
If by courting death at Kashi  
One can gain his salvation  
Why should he at all  
pray for God's mercy?  
Then I was like this, now I am what I am  
This is how people feel boastful on earth

Under influence of pride and greed;  
Whoever is firm in loving devotion to God  
And gains his preceptor's grace  
And keeps company of true saints  
Nothing is beyond him to achieve.  
Says Kabir, listen O wise men,  
Do not be misled by mind,  
For as Kashi so Maghar both  
Are equally infructuous;  
Only love-devotion to God at heart  
Does His blessing impart.

**37.** रे मन कस्यं भूला रे भाइ।

सपन में राजा राज करत है हाकिम हुकुम दुहाइ।  
भोर भइ जन लावन लस्कर आंख खुली सुधि आइ।  
पंछी आन बृछ पर बैठे रिलमिल चौहलर गाइ।  
भोर भइ जब आप आपने जहां तहां उठ जाइ।  
भाइ बंधु अरु कुटुम कबीला नाता सगा सगाइ।  
सागर एक लहर बहुउपजे गिनती गिनी न जाइ।  
कहे कबीर सुनो भइ साधो उलटी लहर समाइ।

O my mind, my brother!  
Why are you being misled?  
In dream as King man rules over kingdom  
As officer wields office power;  
At dawn when he wakes  
He finds no soldier or bodyguard.  
A bird from nearby tree he hears  
Singing the sweet morning song

And sees all neighbours and relations  
Leaving for the day's work;  
Like countless waves of the sea  
Returning to the sea  
The neighbours and relations after their work  
To their own destinations repair.

**38.** सद्गुरु सोइ दया करि दीन्हा।

ताते अन चीन्हार में चीन्हा।

बिग पग चलना बिन पख उड़ना बिन चूंच का चूमना।

बिन नैन का देखन पेखन बिन सरबन का सुनना।

वान न सूर दिवस नहीं रजनी तहा सुरत ली लाइ।

बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृष्णा बुझाइ।

जहँ हरस तंह पूरन सुख है, यह सुख कांसी कहना।

कहे कबीर बलबल सत गुरुका धन सिसका लहना।

The preceptor was so kind to me

I could know from him the Unknown One.

He has no feet, He walks

And no wings, He flies without them

Without lips uses His mouth;

Sans eyes, He sees

And hears all without ears.

No sun or moon, no day and night

In the land where He stays;

All are immersed in love of divine

Nectar is food for all there.

Sans water thirst is quenched in all

All are quite happy in mind

They live in great pleasure.  
All that is beyond words;  
I knew it all by mercy of my preceptor.

**39.** नाचू रे मेरे मन मत होय।

प्रेम के राग बजाय ऐन दिन सबद सुने सब कीय।

राहु केतु नवग्रह नाचे जन्म जन्म आनंद होय।

गिरि समंदर धरती नाचे, लोग नाचे हंस रोय।

छापा तिलक लगाय बांस चढ़ हो रहा सबसे न्यारा।

सहस कला कर मन मोरा नाचे रीझी सिरजनहारा।

O my mind

Do dance immersed in pleasure

To the tune of love-devotion of the Lord;

The music thereof rings in the ear

Of all in the Universe;

All the nine planets are dancing

For ages and ages ever,

The seas and hills of earth dance too

All men of earth do dance

Amidst all their tears and laughter,

The ritualist thinks he will remain

Far apart from others,

But I do dance in full vigour

And the Lord looks on with pleasure.

**40.** जन की पीर हो राजा राम भल जानै। कहुकाहु की मारिं।

नन का दुख बैन जाने, बैन का दुख सबना।

प्यंड का दुख प्राणा जानै, प्राण का दुख मरना।

आस का दुख प्यासा जनि प्यासा दुख नीर।  
भगत का दुख राम जनि कहे दास कबीर।  
Lord Rama knows the sorrows of His devotees.  
He does not need others' reporting.  
As words know the sorrows of eyes  
Sorrows of words, know the ears.  
Life knows the sorrow of body,  
So death knows sorrows of life.  
The thirsty knows the sorrows of thirst  
So Lord Rama knows His devotees' sorrows;  
So said Das Kabir.

**41.** रहना नहिं देस बिराना है।  
यह संसार कागद की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है।  
यह संसार कांट की बाड़ी उरझि पुरझि मर जाना है।  
यह संसार झाड़ औ झांखर आग लगे जरि जाना है।  
कहत कबीर सुनो भई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है।  
This land is different  
It will not suit us at all  
Let us leave;  
It is like a bag of paper  
That will melt  
At the first touch of water;  
It is like a garden of thorny shrubs  
We shall wither and fall here,  
In no time will it catch fire  
And bum to ashes with us;  
Says Kabir, in such a land

We can survive  
Only if we follow  
The words of the Preceptor.

**42.** तज दिये प्राण कायारे कैसी रोडु।  
चलत प्राण काया कैसे रोडु छेड़ चला निर्मोही।  
भैं जाना मेरे संग चलेगा यहि ते काया मल मल धोडु।  
ऊंचे नीचे महल छेड़ गया, भैंस घर छोड़ी।  
तिरिया जो कुलवंती छोड़ी और पुतरन की जोड़ी।  
मोटी छोटी गजी मंगाडु गढी काठ की छोड़ी।  
चार जन तोय ले के चलै फूंक दडु रे फागन की सी होली।  
भोली तिरिया रोवन लागी बिछड़ गडु मेरी जोड़ी।  
कहत कबीर सुनो भाडु साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी।

When life left the body  
On its final journey,  
Body wailed blaming life—  
The heartless is leaving me  
I knew it would take me along  
So, I took care to keep me clean:  
But the heartless did not listen to me  
It left me as well all it owned—  
We built the palace to live in  
The animals—horse and cattle  
To work for us  
It also left the lady of the house  
And pair of sons we bred.  
The lifeless body was put on a bier  
Which four stout men

Bore on their shoulders  
To put it to the pyre,  
To burn it as they do logs in Holi.  
The sorrowing wife wailed—  
I have lost my lifelong partner!  
Says Kabir, O Sadhu listen—  
He who brought you both together  
He it is who has snapped the link.

43. हृरे बिन कौन सहाडु मन का।  
माता पिता भाडु सुत बनिता हित लाग्यो सब फनका।  
आगे को कछु पुलिहा बांधी क्या धर आसा धनका।  
कहां बिसासा इस भालेका इतनत लागे थनका  
सकल धरम पुन फल पावोगे धुरवाखी सब जनका।  
कहे कबीर सुनहुरे संतो इहंमन उड्डन संक्षीपु बनका  
Who other than the Almighty Father  
Should mind beg for shelter?  
For, parents, and son, brother and sister  
Are each busy for own succour;  
Save something for your future use  
Not riches, but something other.  
You cannot depend on your fortune either.  
You will reap the fruits of your deeds here;  
So, love and help always your neighbour.  
Says Kabir, do listen, O wise saints,  
Man is like the little bird of the woods  
A mere transitory creature!



44. संतो सो निज देस हमारा।

जहां जाय फिर हंस न आवे भवसागर की धारा।

सूर चंद्र नहिं तंह प्रकासत नहिं नभ मंडल तारा।

उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी बिन ज्योति उजियारा।

पांच तत्व तीन गुण तंह नाहिं नाहिं तंह सृष्टि पसारा।

तंह न माया कृत प्रपंच यह लोग कुटुम परिवारा।

क्षुधा तृष्णा नहिं सीत उष्ण तंह सुख दुख की संचारा।

आधि न व्याधि उपाधि कछु नाहिं पाप पुण्य बिस्तारा।

ऊंच नीच कुल की मर्यादा आसम वर्ण विचारा।

धर्म अधर्म तंह किछु नाहिं संजम नियम आचारा।

अति अभिराम धाम सर्वोपर सोभा जासु अपारा।

कहे कबीर सुनो भाइ साधो तीन लोक से न्यारा।

O Saints! know it for certain

That is my own land;

Once I reach there

There is no more earthward return for me;

Neither sun, nor moon is there

Nor sky or stars to shine;

No day or night occurs there

None of them rises or sets in the sky;

It is lighted without a source of light.

No Illusion pervades the land

With its darkness to cover;

None lives there with family members,

None suffers from hunger and thirst

Nor from heat and cold;

None knows sorrow or pleasure there,

None suffers from any disease of body or mind  
The five senses and three 'Gunas'  
Do not exist there  
None is bothered for piety and sin  
Or problems of caste or clan,  
Or with rules of conduct and character;  
That is a land pleasant to live in  
Which is different from all other lands  
Of Heaven, Earth and the Nether Region.

45. मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।  
माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बीरा मेरा रे।  
कहे भाइ यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे।  
पेट पकरि कर माता रींवे, बांह पकरि कै भाइ रे।  
लपटि झपटि कै तिरिया रींवे, हंस अकेला जाइ रे।  
जब तक जीवे माता रींवे भाइ रींवे दस मासा रे।  
तेरा दिन तक तिरिया रींवे फिर करे घर बासा रे।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो छोड़ो जग की आसा रे।

Mind fully carefree, man wanders  
Thinking he is overlord on earth,  
Mother says, here is my son,  
Sister says, my brother,  
Mother claims she needs son's support  
Wife says he is my man;  
When my life abates  
Clinging to me my mother will wail  
Brother holding my arm,  
Wife will wail rolling on ground;

Brother will weep for a full year  
Wife for thirteen days  
And then will she settle down again  
To renew her home and hearth;  
Says Kabir, none should ever depend

**46.** मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होइ रे कैसे एक होइ।  
में कहता अंखियन की देखी तू कहता कागद की लेखी,  
मे कहता सरझाव नहारी तू राख्यो उरझाई रे।  
में कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोइ रे।  
में कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे।  
सतगुरु धारा निरमल बाहे वाहे ता में काया धोइ रे।  
कहत कबीर सुनो भाइ साधो तबहि वैसा होइ रे।

How can your mind and mine  
Work in unison?  
I say of what I see with my eyes  
You speak from what you read in papers;  
I say take shelter of the Lord,  
You prompt to welcome Illusion;  
I say, keep awake and alert always  
You advise slumber and rest;  
I ask to discard Illusion  
You advise to immerse in it anon.  
Says Kabir, the Preceptor's words of advice  
Flow like a clean and pure stream,  
If you wash your mind clean therein  
You will gain your way to salvation.

**47.** साधो कीहे कहां से आयो।

तेहि के मन धी कहां बसत हे कीधो नाच नचायो।

पावक सब अंग काठ ही में कीधो डहक जगायो।

हो गया खाक तेज पुनि बाके कहूं धी कहां समायो।

अहे अपार पार कछु नाहिं सद्गुरु जेहे लखायो।

कहे कबीर जेहि सूझबूझ जसतेहि तस आज सुनायो।

O Sadhu, who are you

Wherefrom do you come here?

Wherever did your mind roam

And where did it ever get stuck?

What good and evil deeds you did?

Fire permeates the piece of wood

A little spark brings it out;

When the wood burns to ash in full

Where does the fire go from there?

Like that the Omnipresence of God

Is not comprehensible to all.

Says Kabir, whoever comprehends that

In whatever manner he does,

Tells of it as such.

**48.** माया मोहि मोहित कीन्हा।

तथे मेरो ग्यान ध्यान हरि लीन्हा।

संसार ऐसा सुपिन जैसा जीवन सुपिन समाना।

सांच करि नर गांठ बांधी छाड़ि परम निधाना।

नैन नेह पतंग हुलसे पसुन पेखै आगि।

काल पास जु मुग्ध बांध्या कलंक कामनी लागि।

करि बिचार बिकार परहरि तिरण तारण सोइ।

कहे कबीर रघुनाथ भजि नर दूजा कोइ नाहिं।

Illusion has pervaded my senses,

Whereby I have lost

My knowledge and attention;

The world is merely like a dream;

Life is passing like that.

Man forgets the Almighty Lord

Busy in collection of funds.

Like the insect flying into fire

Unmindful of destruction

Lust makes man blind of his end

He runs after woman in lust.

Pause and ponder the consequence

Take God's shelter always,

There is none else

To depend for gaining salvation.

**49.** हंस हंस मिले सुख होइ।

यहां तो पांती है बगुलन की कदर न जाने कोइ।

जो हंसा तारे प्यास क्षीर को कूपनीर कहीं होइ।

यहां तो नीर सकल ममता को हंस तज जस वोइ।

सट दर्सन पाखंड छानवै भैस धरे सब कोइ।

चार वर्ण और वेद किताबें हंस निराला होइ।

कहे कबीर प्रतीत मान ले जीव नहीं जाय बिगोइ।

Two swans are chatting

In happiness with each other

Here on earth are cranes only

Ignorant of essence of life;  
If they longed for milk really  
Would they crave for well-water?  
Here everyone is subject to attachment  
O swan, do discard that as poison.  
All here cite the scriptures  
Though sinful at heart;  
Says Kabir, living with simple belief in God  
Though ignorant of the scriptures,  
One will attain salvation, be sure.

**50.** अपनपो आपही बिसरो।

ऐसे सोनहा काच मंदिर में भरमत भूकि मरो।  
जो केहरी बपु निरखि कूप जल प्रतिमा देखि परो।  
ऐसेहि मढ़गज फटिक सिला पर असनन आनि आरो।  
मरकट मुठी स्वाढ़ न बिसरो घर घर नटत फिरो।  
कहे कबीर ललनी के सुवना तोहि काने पकरो।

Man forgets himself on earth at times  
Like the dog seeing his image  
In the mirror  
And barking at it in anger  
As if attacking a live-dog;  
As the lion seeing his reflection  
In the well  
Jumps at the enemy to attack him;  
And the elephant seeing the image  
Of its teeth on shining stone  
Attacks it in anger

And loses his tooth thereby;  
As the dancer's monkey  
For greed of food offered in houses  
Goes meekly on the round of dance.  
Says Kabir, like that  
Illusion takes man by the ear  
And leads him on wrong path here.

**51.** काजी कौन कतेब बसाने।

पढ़त पढ़त कते दिन बीते गति एकें नहिं जानै।  
सकति से नेह पकरि करि सुनति यहुन बहुरे भाइ।  
जोर गुदाइ तुरक मोहि करता तो आगे कथि की न जाइ।  
हो तो तुरक करि किया सुनत औरत सो का कहियें  
अरुध सरीर नारी ना छूटे आधा हिंदू रहिये।  
छाड़ि कतेब राम कछु काजी खुन करत हो भारी।  
पकरी टेक कबीर भगति की काजी रहे झुस मारी।

O Kazi from what scripture do you cite?

You read day and night from the same

Could you know the Lord's mode?

You perform 'sunnat' in simple way

Consider it as way of life;

But if you try to impose it on any

You thereby lose your office.

If 'sunnat' for a Turak is must

What about the female sex?

How can she be Turak without 'sunnat'?

Says Kabir, only by love-devotion to the Lord

Can you gain salvation!

**52.** कथणी बढणी सब जंजाल।

भाव भगति अरु राम निराल।

कथै बँदै सुनै सब कोइ कथै न होइ कीये होइ।

कूडी करणी राम न पावै साच टिके निज रूप दिखावे।

अटमे अग्नी घर जल अवास चेति बुझाइ कबीरदास।

Talking and speaking are all useless

Love-devotion to God is far from all that;

People listen to talks and speeches

All that does not help attain devotion,

It is by practicing

One can attain that.

But by doing prohibitive deeds

None can ever realise God.

Only steadfast conduct on Truth will yield;

Says Kabir, by discarding attachment

To illusion and mundane matters

Can one attain love-devotion

For God on earth

Warns Kabir, if you harbour fire in your cloth

It will lead to burning of your house.

**53.** मन तु पार उतार कहां जैहा।

आगे पंथी पंथ न कोइ कछु मुकाम न पैहो।

नाहिं तँह नीर नाव नाहिं खेवट ना गुन खेवनहारा।

धरनी गगन कछु नाहिं ना कछु बार न पारा।

नहिं तन नहिं मन नहिं अपनपो सुन्न में सुध न पैहो।



बलिवान होय बैठी घटमें वाही ठैरे होइ हो।  
बारही बार बिचारि देख मन अंत कहा मत जैहो।  
कहे कबीर सब छाड़ कल्पना ज्यों के त्यों ठहरे हो।

O traveller,  
Where do you hope to go  
After crossing the sea?  
There is no route ahead there  
No known destination to reach  
Nor any waterway to follow  
No boat or boatman to row  
Nor any man to draw the boat by rope.  
No land or sky to see there,  
No beginning and middle nor end,  
Complete void reigns there  
Not a single soul lives in that land  
So, sit steadfast where you are  
To help in case of need;  
Look inside and focus your attention there;  
Says Kabir, do not crave for anything  
Sit tight and concentrate on God.

**54.** काहे कूं भीति बनाउँ टाटी।  
ना जानुं कहा परि है माटी।  
काहे कूं महल मंदिर चिणाऊँ  
मुवा पाछे घड़ी एक रहणा न पाऊँ।  
काहे कूं छाऊँ ऊंच उँचेरा।  
साढे तीन हथ घर मेरा।

कहे कबीर नर गरब न कीजे,  
जेता तन तेता भुडूँ लीजे।  
Why should I build a palace for me?  
On death I know not  
Where my corpse will lie.  
My real need  
Is for three and half cubits  
What for shall I crave for more?  
Says Kabir, man be not proud  
Take that much land  
As your body will need.

**55.** हरि बिन झूठे सब ब्योहार केतेकउ करे गँवार।  
झूठा जप तप झूठा ग्यान, राम नाम बिन झूठा ध्यान।  
बिधी न खेद पूजा आचार सब दरिया में बार न पार।  
डुंदी स्वास्थ मन के स्वाद जहां सांच तंह मांते बाढ़।  
दास कबीर रहया ली ल्याइ धर्म कर्म सब दिये बहाइ।  
Without love-devotion to God  
All efforts are fruitless exercise.  
All meditation and austerities  
Acquiring all knowledge on these  
Are all fruitless effort for man  
Fit for washing them down the stream;  
When lust and greed reign in man  
These will vanish if he sings Lord's name  
Says Kabir, do treasure love of Lord in heart  
Throwing into sea all ritual-effort.

**56.** सरवर तटी हंसिनी तिसाइ।  
जुगति बिना हरि जल पिया न जाइ।  
पिया चेहे तो लै रंग सारी  
उड़ि न सकै ढोउ पग भारी।  
कुंभ लिये ठाड़ पनिहारी  
गुन बिन नीर भरे कैसे नारी।  
कहे कबीर गुरु एक सुधि बताइ।  
सहज सुभाय मिले राम राइ।

Standing on the full tank  
The swan remains in thirst,  
She puts her feet below the bank  
Where they get stuck in mud  
And she cannot move  
To the water to drink  
Nor can fly away from there.  
Like that for want of knowledge  
None can attain the Lord  
As the maid cannot draw water  
From the well without a rope.  
Says Kabir, my preceptor's advice  
Taught me to attain God  
By simple love for Him.

**57.** ऐसे मन लाइ लौ राम रसना।  
कपट भगति कौजे कौन गुना।  
ज्युं मृग नहिं बेधयो जाइ प्यंड परे वाकी ध्यान न जाइ।  
ज्युं मीन जल हेत करि जानी प्रान तजे बिसरे नहिं पानी।

भींग कीट रहे ली ल्याइ है ली लीन भींग है जाइ।

राम नाम निज अमृत सार सुमरि सुमरि जन उतरे पार।

कहे कबीर दासन को दासा अब नहिं छोड़ो हरि चरन निवासा।

Instead of superficial devotion

Immerse in love-devotion of God

Like the deer drawn by sound of music

Losing its life to the hunter's arrow;

Yet retaining attention to music,

Like fish for its attachment to water

Losing its life due to drying of tank

Without escaping for safer quarter;

Like the insect for As love of spider

Losing its entity and turning into the killer;

Your love-devotion for the Lord

Should be as deep and sincere

So as to carve for you

A niche in His feet for ever.

**58.** जो दीसै तो है नाहीं, है सो कहा न जाइ।

बिन देखे परतीत न आवै कहे न कोइ पतियाना।

समझ होय तो रबैं चीन्ही, अचरज होय अयाना।

कोइ ध्यावै निराकार को, कोइ ध्यावै आकारा।

जा बिधि इन दोनो ते न्यारा, जाने जाननहारा।

वह राग तो लिख्या न जाइ मात्रा लखै न काना।

कहे कबीर सो पड़े न परलय सुरत निरत जिनि जाना।

God is not like the temple idol,

What He is like

Cannot be said in words;  
True, what is not seen with eyes  
Is not believable;  
But the knowledgeable understands  
From name only  
The ignorant treats everything unreliable.  
Some on earth worship the Formless God  
Others worship Him in various forms  
In fact neither formless nor embodied is He,  
The wise can comprehend the true fact.  
Whoever comprehends true love-devotion to God  
And essence of non-attachment  
He never falls in Illusion, says Kabir.

**59.** जीव महल में सिव पहुँचा कहाँ फिरत उनमाढ़ रे।  
पहुँचा देवा कर लै सेवा रेन चली आवत रे।  
जुगन जुगन करै पतीछन साहब का दिल लाग रे।  
सूझत नाहिं परम सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे।  
सरवन सुर बूझि साहब से पूरन परगट भाग रे।  
कहे कबीर सुनो भाग हमारा पाया अटल सुहाग रे।

In your heart is the Lord the guest  
Where are you roaming unmindful?  
Offer your love-devotion to Him  
In your own heart  
Before night's darkness clouds it.  
You have been waiting for ages  
For this momentous chance  
Come closer to the Lord's heart.

If you can offer unattached devotion to Him  
The ocean of happiness  
Will be yours no doubt.  
The Lord will Himself explain  
The essence of love-devotion.  
Says Kabir, I am fortunate  
For gaining the Lord's unshakable love.

**60.** सुख सागर में आयके मत जारे प्यासा।  
अजहु समझ नर बावरे जम करत निरासा।  
निर्मल नीर भरें तेरे आगे पीले स्वासी स्वासा।  
मृग तृष्णा जल छड़ बावरे करो सुधा रस आसा।  
ध्रुव प्रह्लाद सुकदेव पिया और पिया रेदासा।  
प्रेमहिं रस सदा मतवाला एक प्रेम की आसा।  
कहे कबीर सुनो भइ साधी मिट गइ भय की वासा।

O traveller,  
Having come to the sea of Joy  
Do not go away in thirst;  
Be careful man  
Death destroys all hope;  
Close at hand flows the stream of pure water  
Do drink from there,  
Discard craving for mirage water  
Drink from sweet spring of love;  
Devotees like Dhruva and Prahlad  
And also Sukh Dev and Rai Dasa  
They all drank the Nectar of love,  
That will maintain Eve of God in you

Crave for that always.  
Says Kabir, O Sadhu listen!  
That will keep you far  
From mundane desires and fears.

**61.** सांड़ से लगन कठिन है भाड़।

जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाड़।  
प्यासे प्राण तलफे दिन रैन और नीर न भाड़।  
जैसे मिरगा सबद सनेही सबद सुनन को जाड़।  
सबद सुने और प्राण दान दे तनि को नाहिं डराड़।  
जैसे सती चढ़ सत ऊपर पिया की राह मन भाड़।  
पावक देखी उरे वह नाहिं हँसते बेठे सदा माड़।  
छोड़ी तन आपनकी आसा, निर्भय है गुन गाड़।  
कहत कबीर सुनो भई साधी, नाहिं तो जनम नसाड़।

It is difficult to attain the Lord in life;  
Like the Papiha bird distressed in thirst  
Craving rain drop from the sky  
Does not long for any other water  
Despite pain of thirst;  
Like deer fond of sweet music  
Losing its life to hunter's heartless arrow  
Without fear of death;  
Like 'Sati' lying without terror  
On her deceased husband's burning pyre;  
Like all that, fearless sing the praise  
Of the Almighty God,  
That will enable you to gain the Lord

Otherwise you will waste your life in vain.

**62.** दुइ जगदीस कहां ते आया कहु कौन भरमाया।  
अलह राम करिमा कैसो हजरत नाम धराया।  
गहना एक कनकते गढना, इनि मह भाव न हूजा।  
कहन सुनन को दूर कर पापिन इक निमाज इक पूजा।  
वाही महादेव वाही महमद ब्रह्मा आदम कहिये।  
को हिंदू को तुरक कहावै एक जमीं पर रहिये।  
वेद कतेब पढ़वे कुतुबा औ मौलाना औ पांडे।  
बेगरि बेगरि नाम धराये एक माटी के भांडे।  
कहहिं कबीर वै दुनों भूलै रामहि किनहू न पाया।  
वो खस्सी वो गाय कटावै बाढ़हिं जनम गँवाया।

How can there be two Lords of the Universe?

Who has confused your mind?

The same Lord is named

Allah and Karima by Hazrat

And Rama and Kesab by High Priest;

Like different ornaments made of gold

Are named differently

The gold in them remaining same,

The names you call them in

Do not make any difference;

So are same Namaz and Puja.

Who is Muslim and who Hindu

Living on same land all?

The Pundit reads the Vedas

And the Mulla the Quran,



Like pots made of same clay  
Are called by different names;  
Says Kabir, both Pundit and Mulla blunder  
None has realised the Lord,  
One permits killing of goat for eating  
The other cow for same purpose  
Both quarrel over the manner of killing  
And remain apart from each other.

**63.** रस गगन गुफा में अजर झरे।

बिन बाजा झनकार उठे जहँ समुझ परे जब ध्यान धरे।  
बिन ताल जँह कँवल फुलाने तेहि चढ़ि हँसा केलि करे।  
बिन चंदा उजियारा दरसे जहां तहँ हँसा नजर परे।  
दसबे द्वारे तारी लागी अलख पुरुष जाके ध्यान धरे।  
काल कराल निकट नहिं आवै, काम क्रोध मद लोभ जरे।  
जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी कर्म धर्म अध व्याधि टरे।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो अमर होय कबहुं न मरे।

Nectar rains all the time  
In an unseen region of the sky,  
Sweet music swells there without instruments,  
Lotus blooms without reservoir,  
And Swans play thereon;  
Without moon there is bright moonlight;  
Swans abound in that region,  
They are in communion with the Lord  
When He does condescend;  
Death does not touch the Swans  
Who have dispelled sense-enemies

Of lust, ire, greed and attachment;  
Says Kabir, they have all become deathless  
Sine die not to die.

**64.** तू ने रात गंवाइ सीयके दिवस गँवायो खाय।  
तेरा जनम अमोल था कौड़ी बढ़ले जाय।  
दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कीय।  
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे की होय।  
पत्ता टूटा डार से ले गया पवन उड़ाय।  
अबके बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाय।  
दुखल की न सताइये, जाकी मोटी हाय,  
मुइ खाल की सांस से लोह भसम हूँ जाय।  
कबीरा आप ठगाइये और न ठगिये कीय,  
आप ठगे सुख होयगा, और ठगे दुख होय।

In slumber do you spend the night  
And in eating the day;  
Your's was a precious life  
Not a "cowrie", a trifle;  
In sorrow does everyone remember God  
Not in happiness;  
If he remembers Him in happiness  
Can sorrow ever befall him?  
The dry leaf drops from the tree  
It is carried far by wind  
Can it ever rejoin the tree, no!  
It shall remain fallen that far,  
Or driven even farther.

Do not ever torment the weak  
His sigh of grief is powerful,  
Remember, the lifeless bellows' breathing  
Can turn hard steel into powder.  
Says Kabir, you cheat yourself man  
Never you cheat another  
You may be happy if you cheat yourself  
But shall court sorrow  
For cheating others.

**65.** तेरा जन एक आध है कोइ।  
काम क्रोध लोभ विवरजित हरि पद चीन्हे सीइ।  
राजस तामस सातिग तिन्धू ये सब तेरी माया।  
चैथे पद की जो जन चीन्हे तिनहिं परम पद पाया।  
असतुति निंदा आसा छोड़े तजे मान अभिमाना।  
लोह कांचन समकर देखे ते मूरति भगवाना।  
च्यंतो तो माथो च्यंतामणि हरिपद रमै उदासा।  
तिस्ना अरु अभिमान रहित है कहे कबीर सो दासा।

Rare is the True devotee of God  
Free from lust and ire and greed  
Holds steadfast on to  
Feet of the Lord.  
'Rajas', 'Tames', 'Satwik' all three  
Are creation of God's illusion .  
Whoever rises above them  
And takes shelter in the Lord  
Earns his salvation.  
Praise and reproof who views alike

Same iron and gold  
He is made in the image of God,  
Looks equally on Beings and things;  
And whoever has banished all desires  
And pride from his heart  
Says Kabir, he would be slave of  
Such a man for ever.

**66.** हम को औढ़ावे चढ़रिया चलती बिरिया।  
प्राण राम जब निकसन लागे उलट गइ ढोउ नयन पुतरिया।  
भीतर से जव बाहर लाये, टूट गयी सब महल अटरिया।  
चार जन मिलि खाट उठाइनि, रोवत लेचले डगर डगरिया।  
कहत कबीर सुनो भाइ साधो संग चली बस सूखी लकरिया।  
They will cover my body with a shroud  
When my life's final journey will start;  
My eye-balls will turn round about  
As my life leaves the body, that moment.  
When the corpse on the bier  
Will be brought out of house  
All links to home will snap at once;  
Four carriers will lift the bier then  
And follow the route to burial ground;  
Says Kabir, my only companion  
Will be the faggots  
To burn me in the fire.

**67.** राम मोहि तारि कहाँ ले जैहो।  
जो बैकुंठ कहो सो कैसी करि पासाओ मोहि देहो।

जो मोरे जीव ढोउ जानत हो तो मोहि मुकति बताओ।  
एक मेक रमि रहया सबन में तो काहे भरमाओ।  
मारण तिरण जबे लग कहिये तब लग तत न जाना।  
एक राम देख्या सबहिन में कहे कबीर मन माना।

O Lord, tell me where on salvation  
Have you ordained my like to go.  
It is said the human soul, Jivatma  
Goes up to Baikuntha, heaven!  
What is that and where  
Do tell me, O my Lord!  
If you hold my soul, Jivatma  
As different from You, Supreme Soul,  
Do tell me what I get from salvation!  
I knew, O my Lord  
You stay in all Beings  
In equal measure;  
If so do confirm!  
Let me not be uncertain.  
If my death and salvation  
Are different processes  
Do make that clear to me, O Lord!  
If soul and Supreme Soul are one and same  
I can understand it all.  
I will see one Lord in every Being  
And remain satisfied.

**68.** साधो सहजे काया सोधी।

जैसे बटका बीज ताहि में पत्र फूल फल छाया।

काया मध्ये बीज बिराजे बीजा मध्ये काया।  
अग्नि पवन पानी पिरथी नभ ता बिन मिले नाहिं।  
काजी पंडित करो निरनय कौन आपा माहिं।  
जल भर कुंभ जल बिच धरिया बाहर भितर सोडु।  
उनके नाम कहन को नाहिं दूजा धोखा होडु।  
कहे कबीर सुनो भाडु साधो सत्य सबद निज सारां  
आपा मध्ये आपे बोले आपे सिरजनहारा।

O Sadhu,

In a simple manner cleanse yourself:

As the seed of the tree remains in it,

And in the seed the tree remains

With leaf, flower and fruit;

In the body is the seed

And so is seed in body too.

Heat and air, water and earth

All come from same Source

Let the wise determine what is in whom;

If a pot full of water is put in water

Water is both outside and in pot;

Says Kabir, listen this true message,

Is like in Supreme Soul is Soul

And in Soul the Supreme Soul too.

**69.** या तरवर में एक पखेरू भोग सरस वह डोले रे।

बाकी संध लखे नहिं कोडु कौन भाव सों डोले रे।

दुर्म डार तँह अति घन छाया पंछी बसेरा लेडु रे।

आवे सांझ उड़ि जाय सवेरा मरम न काहु देडु रे।

सो पंछी मोहि कोइ न बतावे जो बोले घट छांहे रे।  
अबरन बरन रूप नहिं रेखा बैठा प्रेम के मांहे रे।  
अगम अपार निरंतर बासा आवत जात न दीसा रे।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो यह कछु अकथ कहानी रे।  
या पंछी के किन ठौर हे बूझो पंडित ग्यानी रे।

In yonder tree a bird remains  
Dancing always in happiness,  
No one knows about the bird  
What song it sings and why;  
In the deep foliage of the tree  
The bird remains in its nest  
It comes there in the evenings  
And flies away at early dawn;  
It remains silent about itself  
None knows or says about it anything,  
What song it sings in the heart and why  
None knows its shape, size or colour  
Or why it conceals in cool retreat;  
And why keeps its movements unseen, unknown.  
Says Kabir, listen O brother, calm in mind  
Let the knowledgeable wise  
Find the real status of the bird.

**70.** मन मस्त हुआ तो क्यूं बोलै।  
हीरा पाये गांठ गंठियायो बार बार वा को क्यूं खोलै।  
हलकी थी तब चढ़ी तराजू पूरी भइ तब क्यूं तोलै।  
सूरत कलारी भइ मतवारी मढ़वा पी गइ बिन तोलै।

हंसा पाये मानसरोवर ताल तलैया क्युं डीलै।  
तेरा साहब है घटमाही बाहर नैना क्युं खोलै।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो साहब मिल गया तिल ओले।

When mind is full,  
No point in opening the lips.  
If you come across diamonds  
No point to display them  
Again and again.  
When the weighing plate was empty  
It shot up on weightment  
Now that the plate is full  
No point to weigh it again  
If the Swan has reached  
Mansarovar lake  
No need for it to go to puddles  
Of dirty water.  
The Lord is in the heart within  
No need to search for Him outside.  
Says Kabir, O wise Sadhu,  
The Lord permeates the heart of man  
Like oil in the Til oil seed!

**71.** तिंबिर सांझ का गहीरा आवै छँदै प्रेम तन मन में।  
पछिम दिस का खिड़की खोलो डूबहु प्रेम गगन में।  
चेत कँवल दुल रस पीयोरे लहर लेहुया तन में।  
संख घंटा सहनाइु बाजै सोभा सिंध महल में।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो अमर साहिब लख घट में।  
Evening shadows darken deep



Waves of love swell in the mind;  
In the western sky  
Mark the sea of love swelling,  
Take a dip in that.  
Mind is full of waves of love  
That permeate the whole body.  
Hark the sweet music of love  
That swells and sweetens the heart!  
Says Kabir, do notice  
The Lord in the niche of your heart.

**72.** दुलहिन अंगिया काहे न धोवाइ।  
बालापन की मैली अंगिया बिसय दाग परिजाइ।  
बिन धोये पिय रीझत नाहिं सेज से देत गिराइ।  
सुमिरन ध्यान के साबुन करिले सतनाम दरियाइ।  
दुविधा के भेइ खोल बहुरिया मन के मैल धोवाइ।  
चेत करोतिन पन बीते अब तो गवन नगिचाइ।  
पालनहार द्वारा हे ठाडे अब काहे पछिताइ।  
कहत कबीर सुनोरी बहुरिया चित अंजन दे आइ।  
O maiden why have you not  
Washed your blouse yet?  
Stains have appeared thereon  
Being unwashed since childhood days.  
The Lord will not be happy for that  
Will push you out of bed!  
Wash it without delay, maiden!  
With water of Lord's Name  
And soap of Lord's meditation,

And if you discard doubts of mind  
The dirt of your mind will go.  
Three-fourths of life has been spent  
Beware the end is nearing!  
The Lord is standing at your door  
Why have doubts still?  
Apply the unction of your wisdom  
To your eyes to see Him.

**73.** तरवर इक मूल बिन ठाडा बिन फूले फल लागे।  
साखा पत्र कछु नाही वाके सकल कमल ढल गजे।  
चढ़ तरवर दो पंछी बीले एक गुरू एक चेला।  
चेला रहा सो रस चुन खाया गुरू निरंतर खेला।  
पक्षी के खोज अगम परघट कहे कबीर बड़े भारी।  
सबहि मूरत बीज अमूरत मूरत की बलिहारी।

Yonder stands a tree without roots  
It fruits without flowering  
No branch or leaf has the tree  
Lotus blooms all the year round.  
Two birds perch thereon  
One preceptor, the other disciple,  
The disciple eats the sweet fruits  
Preceptor looks on with unconcern  
Says Kabir, unknowable are the birds  
But, the root of the Formless  
Being in the form,  
The embodied has to be  
Given due honour!

**74.** इस दुनिया का नाता न्यारा है।

माता कहे पुत्र मेरा है, पिता कहे सुत मेरा है।

ना माता को ना पिता का इस दुनिया का नाता न्यारा है।

भाइ कहे जोड़ी मेरी है बहन कहे बंधु मेरा है।

ना भाइ का ना बहन को इस दुनिया का नाता न्यारा है।

कहत कबीर सुनो भाइ साधो यह पद तो निरबाना है।

इस पद को जो अस्थ करेगा इहि बहुरि ना आना है।

Unique is the way of the world;

Mother says the son is mine

Father claims him as his.

He really belongs to neither of them

Unique is the way of the world;

Brother says mine is my brother

Sister claims him as hers,

He belongs to neither of them

Unique is world's way.

Says Kabir, the world is step to heaven

Whoever grasps the truth of that,

Will gain salvation, not be reborn.

**75.** जब लग तेल जीवर मुख बाती तब लग सूझे सब कोइ।

तेल जरे बाती ठहराइ तो नाम न गहे कोइ।

काकी माता पिता कहि काके तू राम नाम जप सोइ।

घट फटे कोइ बात न पूछे काढो काढो सब कहि।

कहत कबीर सुनहु रे संतो भवसागर के सांइ।

इस बंदे जतन जो करे जम ना हटे गुसांड।

So long oil is reaching the wick  
The lamp will burn and brighten,  
Like that till your means subsist  
Everyone will pamper you as great;  
But as soon as you are out of means  
None will even remember your name.  
No use seeking help of parents even  
Take shelter of the Lord alone.  
As soon as death overtakes you  
All will shout "take out", "take out"  
For removing the corpse from home,  
Says Kabir, listen O saints,  
God is the only shelter on earth,  
And death is inevitable end of life!  
In spite of efforts of man.

**76.** काया बीरी चलत प्रान काहे रोड।

काया पाया बहुत सुख कीन्हे निति उठ मल धोड।  
सो तन छिया छर हे जैहो नाम न लेही कोड।  
कहत प्रान सुन काया बीरी मोर तोर संग नहिं होड।  
तोहि असमिन्न बहुत हम त्यागा संग न लीन्हा कोड।  
उपर स्वेत के कुसा मंगारे चांचर चढ़र के पानी।  
जीवन ब्रह्म कोड न पूजे मुरदा के मेहेमानी।  
सिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख होड।  
जो जो जनम लियो बसुधा में थिर रहयो ना कोड।  
पाप पुण्य हे जन्म संगती समुझि देख नर सोड।

कहत कबीर सभि अंतर की गति जाने बिरला कीडु।

Says life,

Do not lose your senses

O, body, do not wail

Because I am leaving you;

You have been taken care of for long

Daily being washed and cleaned!

But life cannot be with you for ever.

True once he leaves

None will even touch you!

Adds life, listen body

Many friends like you have I left

Not taking any with me!

But listen too, when I departed

None cared for me as Soul

The y all wailed and cried for you, the body!

Be he god or goddess

Whoever born on earth

Did not live for ever here

Left after a span of time.

Life and death depend on fruits

Of deeds performed by man on earth;

Says Kabir, I have told you all

The essence of creation on earth here.

**77.** अवधू भूले को घर लवि।

सो जन हम को भावि।

घर में जोग भोग घर ही में घर तज बन नहिं जावि।

घर में जुक्त मुक्त घर ही में जो गुरु अलख लखावै।  
सहज सुन्न में रहे समाना सहज समाधि लगावै।  
उन्मुनि रहे ब्रह्मा को चीन्हे परम तत्व को ध्यावै।  
सुरति निरति से मेला करके अनहद नाद बजावै।  
घर में बसत बस्तु भी घर है घर ही बस्तु मिलावै।  
कहे कबीर सुनो हो साधु ज्यों का त्यों ठहरावै।

O Abdhut! I shall admire any  
Who can persuade the man  
To come back home!  
At home he can practice ascetics  
Not necessary to repair to woods!  
At home can also practice Yoga  
Or remain as free as he likes,  
The Lord remains also in home  
He can pray to Him or meditate there  
And realise, Him there too!  
Says Kabir, he can sit tight  
At home as and where he is.

**78.** जब थे आत्म तत बिचारा।

तब निर बैर भया सबहिन थे काम क्रोध गही डारा।  
व्यापक ब्रह्म सबनि में एकै, को पंडित को जोगी।  
राणा राव कवनसु कहिये कवन बैद को रोगी।  
इन में आप आप सबहिन में आप आप सूं खेले।  
नाना भांति गढ़े सब भांडे रूप धरे धरि मेले।  
सोच बिचारि सब जग देख्या निरगुण कोडु बतावै।

कहे कबीर गुणी अरु पंडित मिलि लीला जस गाँवे।

Since I have undertaken  
Self-analysis,  
I have discarded  
Enmity to all persons,  
Shed lust and ire from mind  
Realised Lord's presence in every Being  
Be he rich or poor, Yogi or not.  
All Beings are made of same elements  
All same irrespective of shape and size;  
Like pots and pans of different shape  
Though named differently  
Remain the same clay.  
The Lord as Soul remains in all  
In same measure,  
Says Kabir, let all together join  
In singing praise of the Lord.

**79.** काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही लाल सरोवर पानी।

जल में उतपति जल में बास, जल में नलिनी तोर प्रगास।

ना तल तपत ना ऊपर आग, तोर हेतु कहु का सन लाग।

कहत कबीर जो उदक समान ते नाहीं मुए हमारी जान।

O Lotus why are you dejected?

You are born in water, belong to it

You do not suffer heat from below or above

None dislikes or disdains you,

You are always in water, so same as it,

Says Kabir, who like lotus is same as water

Has no demise to be sure.

**80.** अवधू कुदरत की गति न्यारी।

रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी।

केते लवंग ही फल नहि लागे चंदन फूल न फूलै।

मछ सिकारी रमे जंगल में सिंह समुद्रहि डोलै।

रेड़ा रुखा भये मलयागिरि चहुं दिसि फूटि बासा।

तीन लोक ब्रह्मांड खांड में देखे अंध तमासा।

पंगुल मेरु सुमेरु उलैथे तिभुवन मुक्ता डोलै।

गंगा ग्यान बिग्यान प्रकासे अनहद वाणी बोलै।

बांधि अकास पाताल पठारै सेस सरग पर राजे।

कहे कबीर राम राजा हे जो कछु करे सो छेजे।

O Abdhut, unique is the way of God!

If He likes He makes

A Prince of the pauper

And a beggar of the monarch too,

He has ordained the clove flower

Though sweetly scented not to bear a fruit,

And the scented sandal not to bear

A single flower at all.

The fisherman roams the forest to fish

The lion seeks the seas for prey.

A tract of desert He makes

A Malay hill of flower bearing trees.

In three worlds of the Universe

The blind sees all the farce!

The disabled moves all over the earth



From North to South pole.  
Lifeless gems move  
All around the earth,  
The dumb gives discourse  
On sciences faultlessly,  
The sky is tied and brought to Nether region,  
Shesh Nag the snake in Heaven rages!  
Says Kabir, the Lord is Almighty,  
Does as He thinks fit!

**81.** अल्लालि अल्ला बूर पाया कुदरत के सब बंदे।  
एक बूरथे सब जग उपजा की भले की मंदे।  
लोगा भरमन भूलो भारि खालिक खालिक  
खालके खालिकि पूर रहयो सब ठांडु।  
माटी एक अनेक भांड करे साधु साजन निहारे।  
ना कछु कोछ माटि के ना कछु कोछ तुम्हारे।  
सब में सारा एकी सीइ उसका किया सब कछु हीइ।  
पछाणि तुम सी एकी जाने, बंदा कहिये सीइ।  
अल्ला अलख न जाइ लखिया गुड़ गुड़ बिना मीठा।  
कहै कबीर मेरी संका नासि सरब निरंजन दीठा।

From the effulgence of Allah Almighty  
All Beings of earth are born.  
Who of them can be said to be good  
And who not of them?  
Under misconception do people not see  
How the Lord pervades the Universe  
All places in equal measure!

From same elements are all Beings made  
Like pots and pans from clay.  
The difference in them being neither due  
To the clay nor the potter.  
The Lord who permeates entire earth  
Is the only Truth in Universe  
His dictates prevail everywhere.  
Whoever knows this  
And follows His dictates  
Is true slave of the Lord!  
The Lord is unseen and unknown  
Unknowable is He.  
Says Kabir, I looked sans fear  
And was able to see the Lord  
All over in every sphere.

**82.** अलख अलख निरंजन देव, किहि विधि करों तुम्हारी सेव।  
बिसन सोइ जाको बिस्तार सोइ कृसन जिनि किए संसार।  
गोब्यंद ते ब्रह्मांडहिं गेहै, सोइ राम जो जुगि जुगि रहे।  
अलह सोइ जिनि रमति उपाइ दसदर खोलै सोइ खुदाइ।  
लख चौरासी रब परवरी सोइ करीम जो एतिकरे।  
गोरख सोइ ग्यान गमि रहै महादेव सोइ मनकी लहे।  
सिध सोइ जो साथे इती नाथ सोइ जो त्रिभुवन जती।  
सिध साधु पैगंबर हुवा, जेपे सुएक भेषो है जूवा।  
अपर पार का नाउ अनंत, कहे कबीर सोइ भगवंत।  
O Almighty Lord of Universe  
Unseen and unknown Niranjana Dev,

Tell me how I shall worship you.  
Vishnu pervades entire Universe  
Krishna creates all three worlds  
Govinda sustains whole Universe  
Rama is for ages and ages.  
And Allah provides work for men  
Khuda maintains the "Brahma" in all  
Karim controls death  
And also birth in various genes.  
Gorakh controls knowledge in Beings,  
Mahadeva as Shiva controls mind.  
He is Sadhu and Paigambar  
Who worships all Gods equally,  
All these names denote the Lord,  
The boat for Kabir to cross mundane sea.

**83.** जों खोदाय मसजीद बसतु हे और मुलक केहिकेरा।

तीरथ मूरत राम निवासी बाहर करे की हेरा।

पूरब दिसा हरिका बासा पछिम अलह मुकामा।

दिल में खोजी दिल ही में खोजी डुहे करीमा रामा।

केते औरत मरद उपानी, सो सब रूप तुम्हारा।

कबीर पौगंज अलह राम का, गुरु पीर हमारा।

If Masjid is where Allah resides

Who looks after the rest of the Universe?

If in the temple idol remains Rama

Who looks after all the rest?

If Hari is confined to the East

And Karim to the West alone

Who cares for the other directions?  
Search your heart, your heart alone  
Both Karim and Rama remain there.  
All the Beings, both men and women  
Are in their image.  
Says Kabir, he is son of Allah and Rama  
His guru is Pir alone.

**84.** चढ़रिया झीनि रे झीनि, राम नाम रस भीनि।  
असूट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी।  
नव दस मास बुनन को लागे, मूरख भेली कीनी।  
जब मोरि चादर बन घर आयी रंगरेज को दीनी।  
मूरख लोग भेद नहिं जाने दिन दिन भेली कीनीं  
ध्रुव प्रह्लाद सुदामा ने ओढ़ी सुकदेव निर्मल कीनी।  
दास कबीर ऐसी ओढ़ी ज्युं की त्युं धरि दीनी।

In the image of the Lord  
Is made the human body, the "sheet"  
It is fine to the uttermost.  
Made of the thread  
Produced on the spinning wheel  
Of eight lotuses;  
It took ten months to weave it out  
And when h was ready and reached home  
The colour expert took it to dye;  
He dyed it so well in vermilion  
Made it finely scarlet,  
In ignorance men made it dirty.  
But wise and pious men like Dhruva,

Prahlad and Sudama  
Used the sheet and dirtied not  
Sukhdev made it brighter still.  
Das Kabir used his sheet carefully  
And returned as it was before.

**85.** नाम जपन केउँ छोड़ दिया।

क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा सत्य बचन केउँ छोड़ दिया।  
झूठे जग से मन ललचाकर असल बतन केउँ छोड़ दिया।  
कीड़ि को तो खूब समहाला लाल रतन केउँ छोड़ दिया।  
जिस सुमिरन से सुख पावै सो सुमिरन केउँ छोड़ दिया।  
कहे कबीर तेरे राम भरोसे तन धन मन केउँ ना छोड़ दिया।

Why have you given up meditating the Lord

Though not given up ire and falsehood?

Why you gave up speaking truth

Though not given up

False pleasures of earth?

Why did you give up loving the Lord

And meditating Him

Though that is source of real happiness?

Says Kabir, may God help you,

Why have you not given up

Love of money, body and wealth!

**86.** मन मोहे नाच नचावै माया।

काम हेतु तन सब दिन नचै जोकरि दिन बिताया।

धुव प्रह्लाद अटल भइ डाकै राज विभीषण पाया।

अजहुं सुमिर नरहरि नाही निलज बेहाया।  
कहे कबीर सुनो भाइ साधो गणिका गुमान तोड़ाया।  
O my mind,  
Illusions of the world  
Keep you on your feet always;  
Lust keeps man bewildered night and day.  
Devotees like Dhruva and Prahlad  
And also Bibhisan of Lanka,  
Were steadfast on Truth  
And mind immersed in God,  
Illusions could not touch them at all  
Like theirs  
Take shelter in the Lord  
Says Kabir, be firm  
Do Not be shameless  
Yield not to lures of lust  
And to other agents of Illusion.

**87.** सब जग माया गुलाबी रंग लगाया।  
कंकर चुन कर महल बनाया कहता है घर मेरा।  
ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया ऐन बसेरा।  
झूठे घर को घर कहा सच्चे घर की फेरे।  
इस घर से जब उस घर जावे लोग मचावे सीरे।  
रूपया रूपया जमा किया करे लाख करोड़े।  
जब नारायण का हुकुम होवेगा चले रंग की छेड़े।  
रंगी को नारंगी कहा बने दूध को खोया।  
चलती को गाड़ी कहा देखे कबीरा रोया।

Illusion has enveloped the world  
In a rosy tint;  
Collecting stones you build a palace  
Say it is your home  
It is neither mine nor yours  
At best bird's nest for the night.  
Your true home you have forgotten  
The false one own as your own;  
When you will be ready for the true one  
People will not touch your corpse.  
Saving little by little day to day  
You make up lakh or crore,  
On death you have to leave all that  
For others to envy all.  
Says Kabir, I am amazed how  
Men call the colourful fruit, "Narangi" colourless,  
And the moving cart, "Gadi" stationary,  
Whole milk as Khoya or lost;  
All that makes me weep.

**88.** माया तजूं तजि नहिं जाडु फिर फिर माया मोहि लपटाडु।

माया आदर माया मान, माया नहिं तँह ब्रह्म गियान।

माया रस, माया कर जान, माया कारनि तजे परान।

माया जप तप माया जोग, माया बांधे सबहि लोग।

माया जल थलि माया अकासि, माया व्यापी रही चहुं पासी।

माया पिता माया माता, अतिमाया अस्तरी सुता।

माया मारि करे ब्योहार कबीर मेरे राम अधार।

I wish to discard illusion

Not able to discard  
It involves me again and again  
Even in little acts of affection;  
It makes man even lay down life  
Does not spare the ascetic even  
It spreads to his sacrifice  
And other spiritual exercises too.  
It pervades land, sea and sky  
There is nowhere it cannot go  
Illusion pervades the family members  
Parents and offsprings in varying degrees.  
Says Kabir, whoever firm in devotion to God  
Succeeds in dispelling illusion.  
Where illusion is not  
There is knowledge of Brahma  
Or God, be sure.

**89.** तीरथ कौन करे हमारे।

मन मोही गंगा मन मोही जमुना मन मोही दान करे।

मन मोही माला मन मोही मुद्रा, मन मोही ध्यान धरे।

कहे कबीर सुनो भाइ साधो, भटकत कौन फिरे।

Why should I go on pilgrimage?

To me my mind is Ganges river

And also river Yamuna!

My mind makes all the gifts for me;

That is my string of beads

And practices that for me.

For me my mind meditates the Lord;

Says Kabir, why shall



I Roam about for all that?

**90.** नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछतायेगा।  
तू कहता काया मेरा, काया का गुमान क्या?  
चांद सा सुंदर मुखड़ा तेरा मिट्टी में मिल जायेगा।  
वहां से तू क्या लाया बंदे इहां से तू क्या ले जायेगा।  
मुठी बांध के आया जग में हाथ खुल के जायेगा।  
बालापन में खेल्या खाया आयी जवानी मस्त रहा।  
बूढ़ापन में रोग सताया, हाथ परर कांपन लागा।  
जपना है तो जपले बंदे आखिर तो मिट जायेगा।  
कहत कबीर सुनो भाइ साधो करनी का फल पायेगा।

Meditate the Lord Almighty, man  
Or else you will rue for that;  
You say the body belongs to you  
Rely not on it at all.  
Beware, your beautiful moon-bright face  
Will at last mingle in dust  
Recall what you came with to earth  
And think what you will carry from here,  
You came with a closed fist on birth  
And shall leave with open hands.  
Your childhood you spent  
In playing and eating  
In youth became prey to lust  
Old age made you ill and weak  
Delay not to meditate God,  
For death will come to all, be sure;

Says Kabir, know it for certain  
You shall have to reap fruits of all that  
You sow as deeds.

**91.** राम राडु तेरी गति जाणि न जाडु।  
जो जस करिहे सो तस पाडुहे राजा राम निआडु।  
जैसी कहे करे जो तैसा तरत न लागे बारा।  
कहता कहि गया सुनता सुनि गया करणी कठिन अपारा।  
सुरहातिण अमृत सरबे लेर भँवर न पाडु।  
अनेक जतन करि निग्रह कीजे बिषे बिकार न जाडु।  
संत करे असंत की संगति तासूं कहा बसाडु।  
कहे कबीर ताके भ्रम छूटे जो रहे राम ल्यो लाडु।

Lord Rama,  
You are unique unknowable to all  
You have laid down the law  
Man shall reap what he sows;  
And if he performs what he professes  
Salvation is assured to him;  
You have held that deed  
Is far superior to word,  
Attachment to mundane bonds  
Hard though, should be snapped  
By every means.  
If the saint keeps company of the vicious  
He should be classed with latter;  
Says Kabir, who has love-devotion to God  
Sheds all his ignorance.

**92.** इस धन तन का कीन बड़ाइ।

देखात नैन में मिट्टी मिलाइ।

आपन खातर महल बनाया आप तो जाकर जंगल सीया।

हाइ जलै जैसे लकड़ी का मौली।

केस जले जैसे घास की पोली।

कहत कबीर सुनो भाइ साधो,

आप मुवे इथे डूब गयी दुनिया।

Of what value is

Man's body and wealth

That he builds a mansion for housing that?

At last on his demise

He is buried in the waste land;

His corpse burns on pyre like faggots

And hair as a sheaf of grass;

Says Kabir, on your demise

The whole world is nipped with you.

**93.** मन लागो मेरो चार फकीरी में।

जो सुख पाऊं नाम भजन में सो सुख नाहिं अमीरी में।

भला बुरा सब की सुनि लींजे कर गुजरान गरीबी में।

प्रेम नगर में रहनि हमारी भली बनी आइ सबूरी में।

हथ में कूंडी बगल में सींटा चारों दिसा जागीरी में।

आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में।

कहत कबीर सुनो भाइ साधो साहब मिले सबूरी में।

O my mind, my friend,

Do lead the life of a Fakir on earth.

The joys you get  
From singing praise of God  
You cannot get from living as Emir!  
Hear the joys and sorrows, of all  
And live like a simple poor man!  
With love to all your neighbours.  
When going with a spade in hand  
And pipe in waist  
Do not think you are overlord of all;  
Your body will burn to ash in the end  
Why bear pride on earth?  
Says Kabir, be humble,  
If you wish to attain the Lord!

**94.** माटी कहे कुम्हार सून, तू क्या खुंदे मोय।  
एक दिन ऐसा होवेगा, मैं खुंदूंगी तोय।  
आये हूँ सी जायेंगे, राजा रंग फकीर।  
एक सिंघासन चढ़ि चले, एक बंधे जंजीर।  
दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय।  
मुई खाल की सांस से, लोह भसम है जाय।  
पत्ता टूटा डार सों, ले गई पवन उड़ाय।  
अबके बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाय।  
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद।  
कह कबीर उदास की, को सुने फरियाद।  
Clay says to the potter, listen  
Why do you dig and smother me?  
Beware one day you shall lie

In my bowels where I shall smother thee.  
All those who have come earthward  
Will one day return from here  
One, a Raja, may be seated on throne  
The other, a fakir, tied in rope to bier.  
Do never oppress the poor and weak  
His sigh of pain is powerful  
As the lifeless blower's breath, you know  
Can burn hard iron to ash in full;  
The dry leaf dropping from the tree  
Is blown far by the wind,  
Can it ever rejoin the tree, no.  
It shall fall far away from the tree.  
In happiness you forgot God  
In sorrow you sought His grace,  
Says Kabir, who will listen to you,  
So indifferent you are.

**95.** जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा।  
उदे अस्त की बात कहत ही, ता कर करी बिचेरवा।  
बाटे घाटे सब कोइ दुखिया, क्या गिरही बैरागी।  
सुकाचार्य दुखाही के कारण गँभै माया त्यागी।  
जोगी दुखिया जंगम दुखिया तापस को दुख दूना।  
आसा त्रिसना सब घर व्यापे कोइ महल नहिं सूना।

All whom I saw were in sorrow immersed  
None embodied I saw was in happiness!  
Day in, day out everyone was sad,  
Everywhere, indoors or on road.

Ascetic or not, everyone was in sorrow.  
The wise Sukra Muni  
Did have sorrow in womb  
And caused destruction of Illusion there  
Wise, unwise, reamed, ignorant  
All suffer sorrow on earth,  
The ascetic suffers it all the more;  
Oppressed by desires all remain in sorrow,  
In sorrow every house is immersed,  
Goaded by desires  
No house is in happiness.

**96.** देह धरे का ढंड है, सब काहु को होय।

ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोय।

कबिरा में तो तब उरों, जो मोही में होय।

मीच बुढ़ापा आपदा, सब काहु में होय।

बंदे केउँ करनी करे, क्यों करे पछिताय।

बोये पेड़ बबूल के, आम कहां ते खाय।

Everyone embodied suffers in body

Everyone born on earth;

The learned suffers from his knowledge

The ignorant for not knowing.

Says Kabir, I would bother

If I alone were to suffer,

Death, old age, and dangers of life

They visit all who are born here.

But, why should man do a deed

And regret having done?

If one plants a Babul tree  
Can he hope to get sweet mango from it?

**97.** साधो देखले देखन हारा।

इस घट अंदर बाग बगीचे इसी में सिरजनहारा।

इस घट अंदर सात समंदर इसमें नी लख तारा।

इस घट अंदर हीरा मोती इसी में परखनहारा।

इस घट अंदर अनहद बजै इसी में उठत फुँआरा।

कहे कबीर सुनो भाइ साधो यही है गुरु हमारा।

Let anyone who wants

Ponder and scrutinize.

In this body is the celestial park

And therein the Lord Almighty!

In this body are the seven seas

And all the nine lakh stars;

In this body are all gems and diamonds

And the tester thereof too.

Here the celestial music swells

Springs gush here everywhere.

Says Kabir, O Sadhu listen,

This to me is my Preceptor.

**98.** जब में भूला रे भाइ मेरे सदगुरु जुगत लखाइ।

किरिया करम आचार छोड़ा, छोड़ा तीस्थ का नहाना।

सगरी दुनिया भइ सयानी भैंहि इक बैराना।

ना में जानु सेवा बंदगी ना में घंट बजाइ।

ना में मूरत धरि सिंहासन ना में पुहुप चढ़ाइ।

ना हरि रीझे जप तप कीन्हे ना काया को जारे।  
ना हरि रीझे धोती छोड़े ना पांचों को मारे।  
दया रखि धरम को पालै, जग सो रहे उदासी।  
अपना सा जीव सब को जानै ताही मिलै अविनासी।  
सहे कुसबद बाद को त्यागै छोड़े गर्व गुमाना।  
सत नाम ताहि को मिलिहै कहे कबीर सुजाना।

When I miss the point  
My preceptor shows the way.  
I have since given up  
The prescribed modes,  
No more pilgrimage  
To sacred places for me!  
People think they are clever  
And I am a mad man.  
I no more perform worship in temple  
Do not ring the bell for God.  
Nor do I offer flowers  
Of worship to the idols there.  
I do not meditate temple God  
Nor do sacrifice  
And painful austerities for Him.  
I am kind to all Beings of earth  
And treat them equal to me  
Unattached to mundane pleasures  
And connections thereto I live.  
I tolerate harsh words  
Of others to me,  
Pride from my heart I have shed



I firmly believe, says Kabir  
The Lord will shower  
His kindness for all that.

99. राम भजे सो जाणिये जाको आतुर नाही।  
सत संतोष लिये रहे धीरज मन माहीं।  
जन को काम क्रोध ब्यापि नाहिं तिष्णा न जरावे।  
प्रफुल्लित आनंद में गोव्यंद गुण गावे।  
जन को परनिंदा भाव नाहिं, अरु असतिन भासे।  
काल कल्पना मेटि करि गोव्यंद चित्त राखे।  
जन समदृष्टी सितल सदा द्विधा नाहिं आने।  
कहे कबीर ता दास सूं मेरा मन माने।

Know the true devotee of the Lord  
As one whose mind is never  
Distraught with desires.  
He is ever patient and also content  
In all circumstances always.  
Lust and ire touch him not  
Glad and eager always  
For singing praise of the Lord;  
He never reviles anyone  
Talks not untruth, never  
Has no fear at all of death;  
Cool and collected always  
Looks on all Beings with equal fervour  
Mind steadfast on feet of the Lord.  
Says Kabir, he would be slave to  
Such a person as that.

**100.** मन के भेले बाहारि उजलो किसीरे।

खांडे की धार जनकी धरम इसीरे।

हिरदा को बिलाव नैन बग ध्यानी।

ऐसी भगति न होइ रे प्राणी।

कपट का भगति करे जिन कोइ।

अंत की बेर बहुत देख्य होइ।

छाड़ि कपट भजौ राम राइ।

कहे कबीर तिहूं लोग बड़ाइ।

If you have dirtied your mind

No sense in cleaning up your body;

Piety is like walking on razor's edge,

You did not remember that.

If the heart is full of poison

There is no merit

Meditating like the crane

To gulp up fish.

True devotion is not like that.

Whoever practices tortuous devotion

at the end suffers very much.

Says Kabir, shun false devotion to God

Meditate Him in simple straightforward way.

**101.** जहां खिलत बसंत रूतु राज।

जहां अनहद बाजा बजै बाज।

चहुं दिसि जोति की बहे धार।

बिरला जन कोउ उतरे पार।

कीटि कृष्ण जहुं जोड़े हाथ।  
कीटि बिष्णु जहं नावे माथ।  
कीटिन ब्रह्मा पढ़े पुरान।  
कीटि महेश धरे जहँ ध्यान।  
सुर गंधर्व मुनि गने न जाय।  
जहँ साहब प्रगटे आय आय।  
चोवा चंदन अरु अबीर।  
पुहुप बासरस रहयो गंभीर।

Where Spring, Prince of seasons  
Displays itself always,  
Celestial music swells there  
Amidst eternal brightness;  
Few have the chance to go up there.  
Countless "Krishnas" stand with folded hands  
Crores of "Vishnus" bow their heads.  
Numberless "Brahmas" read the scriptures  
Countless "Mahesh" meditate the Lord;  
Gods, goddesses and musicians  
Stand in attendance in countless numbers;  
Lo, the Lord has manifested there,  
The air is charged with  
"Choa" , "Chandan" and flavour  
Of many a scented flower!  
Come let us hasten there.